

केन्द्रीय विद्यालय एन. डी.ए. पुणे
आवधिक परीक्षा -1 2018-2019

कक्षा -छठवीं

विषय -- हिन्दी

अंक --40

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। [1x5=5]

आत्मनिर्भरता उन्नति का आधार है और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य अपने आप करता है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता लेता है और उसी प्रकार दूसरों को भी सहायता देता है, वह व्यक्ति उन्नति की दौड़ में कभी पीछे नहीं रह सकता है। अपने दैनिक जीवन के सारे काम स्वयं करना और उनका पूर्ण ज्ञान रखना मानव के लिए अत्यावश्यक है। जिस काम के लिए कोई भी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उस कार्य में वह पिछड़ जाता है और उसका कार्य अपूर्ण रहता है। स्वावलम्बी पुरुष सिंह समान उद्यमी व परिश्रमी होता है तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। उसके पास धन की कमी नहीं रहती है। दूसरों को सहयोग देने के कारण समाज में यश प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वावलम्बी पुरुष चहुं ओर से उन्नति कर शिखर पर पहुंच जाता है।

निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए -----

1) व्यक्ति अपने जीवन में कब पिछड़ता है ?

(क) जब वह दूसरों का सम्मान करता है।

(ख) जब वह सभी का अनादर करता है।

(ग) जब वह अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है।

(घ) जब वह सोच कर कार्य नहीं करता।

2) मनुष्य की उन्नति का आधार क्या है ?

क) आत्मकेन्द्र

ख) आत्मनिर्भरता

ग) पराधीनता

घ) आत्मविश्वास

3) स्वावलम्बी पुरुष की क्या पहचान होती है?

क) परिश्रमी व उद्यमी होता है।

ख) कार्य जल्दी करता है।

ग) किसी की परवाह नहीं करता है।

घ) समाज में किसी से संपर्क नहीं रखता।

4) स्वावलम्बन से मनुष्य क्या प्राप्त करता है ?

क) शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ

ख) धन प्राप्ति

ग) यश और वैभव

घ) सभी विकल्प

5) ' चहुं ' शब्द का क्या अर्थ है ?

क) चाहे

ख) चाह

ग) चारो ओर

घ) चलना

प्रश्न 2 निम्न लिखित शब्दों के एक एक विशेषण और जोड़ो --

[1X2=2]

(क) हंसनेवाला बालक

(ख) फूलो वाली क्यारी

प्रश्न 3 - नीचे दिए गए वाक्यों से क्रियाविशेषण छाटकर लिखो --

[1 X 2=2]

(क) चोर फुर्ती से भागा |

(ख) गेंद लुढ़कती हुई झड़ियों में गई |

प्रश्न 4- नीचे दिए गए शब्दों के सर्वनामिक विशेषण जोड़ो --

[1 x 2=2]

(क) चचेरा भाई |

(ख)..... दादी |

प्रश्न 5- नीचे दिए गए वाक्यों से पुरूषवाचक सर्वनाम छाँटो |

[1 x 2=2]

(क) लंबा आदमी उनकी ओर चला आ रहा है

(ख) मैं भूख से मारा जा रहा हूँ |

प्रश्न 6- निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए --

[1 x 5 =5]

केशव के घर कॉर्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे | केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते - जाते देखा करते थे | सवेरे दोनों आंखे मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते | उनको देखने में न जाने दोनों बच्चों को क्या मिलता , दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी | दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे | अंडे कितने बड़े होंगे ? किस रंग के होंगे ? कितने होंगे ? क्या खाते होंगे ? उनसे बच्चे किस तरह से निकल आएंगे ? घोसला कैसा है ? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था |

निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए -----

1) चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे ?

(क) पेड़ पर

(ख) कॉर्निस पर

(ग) छत पर

(घ) कहीं नहीं

2) चिड़ा और चिड़िया को कहाँ बैठा पाते थे ?

क) कॉर्निस पर ख) दरवाजे पर ग) छत पर

घ) घोसले में

3) किसके दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे ?

क) केशव के ख) श्यामा के

ग) दोनों के

घ) किसी के नहीं

4) उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या है ?

5) उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम बताइए |

प्रश्न 7- नीचे दिए गए किनही तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए --

[2X3 =6]

(1) केशव ने श्यामा से चिथड़े ,टोकरी ओर दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे ?

- (2) कृष्णा सोबती बचपन मे इतवार की सुबह क्या क्या कम करती थी ?
 (3) केशव और श्यामा आपस में ही सवाल - जवाब करके अपने दिल कों तसल्ली क्यों दिया करते थे ?
 (4) कृष्णा सोबती बचपन में कौन - कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी ?

प्रश्न 8- निम्न लिखित पदयांश कों पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए -- [1x4=4]

वह चिड़िया जो
 चोंच मारकर
 चढ़ी नदी का दिल टटोलकर
 जल का मोती ले जाती है
 वह छोटी गरबीली चिड़िया
 नीले पंखों वाली मैं हूँ
 मुझे नदी से बहुत प्यार है।

1) चिड़िया को किससे प्यार है ?

क) पंखों से ख) चोंच से ग) नदी से घ) जंगल से

2) चिड़िया का स्वभाव कैसा है ?

क) घमंडी ख) संतोषी ग) गरबीली घ) रुचिकर

3) चिड़िया के पंख कैसे है ?

क) पीले ख) नीले ग) हरे घ) काले

4) उपर्युक्त पदयांश के पाठ का नाम बताइए।

प्रश्न 9- निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए -- [2x2=4]

(1) चिड़िया कों किन किन चीजों से प्यार है ?

(2) " रस उड़ेलकर गा लेती है" आशय स्पष्ट करो।

प्रश्न 10- निम्न प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए - [2x2=4]

(1) राजा दशरथ के कितने पुत्र थे ? नाम भी लिखिए।

(2) रानी कैकयी ने राजा दशरथ से कौन से दो वरदान माँगे ?

(3) विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई ?

प्रश्न 11- निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। [4]

(क) स्वतन्त्रता दिवस (ख) मेरा प्रिय मित्र (ग) प्रिय खेल